



CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Regd. Office : A-2, Opp. Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR - 302 005 Rajasthan (INDIA)
Phone: +91-141-222 2232 Email : conpetco@gmail.com
CIN No. : L23201RJ1986PLC003704 GSTN : 08AAACC7033L1ZM

Contol

Lubricants-Accelerating Performance

www.contol.in
www.conpetco.com

Date: 27-10-2021

To,
The Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers , Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001

SCRIPT CODE: 523232 SCRIPT ID: CONTPTR

Sub: Submission of Newspaper Clippings of Notice of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith newspapers clipping of the Notice of the Board Meeting and Trading Window closure of the company published in the Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) for your perusal and kind consideration.


Kindly take the same in our record.

Thanking You

Yours Faithfully,

For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

MADAN LAL KHANDELWAL
(Managing Director)
DIN: 00414717



ISO 14001:2015 & 9001:2015 Certified

CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Regd Office: A-2, Opp. Udyog Bhawan, Tikat Marg, C-Scheme, Jaipur-302005, (Rajasthan) Phone: 0141-2222332
CIN: L23201RJ1986PLC003704 • E-mail: conspetco@gmail.com, cs.conpetco@gmail.com • Website: www.contoil.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on, Friday, 12th November, 2021 at 1.30 P.M. at the registered office of the company inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the company for the half year and quarter ended September 30th, 2021 along with the limited review report of the auditor. Further, the trading window for dealing in securities of company is already closed for all designated persons of the company and their immediate relatives from 01st October, 2021 and the same shall remain closed till 48 hours after the announcement of the financial results for the quarter ended September 30th, 2021. This information is also available on the website of the company at www.contoil.in and website of BSE at www.bseindia.com. For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Place : Jaipur
Date : 26-10-2021

Sd/-
Madan Lal Khandelwal (Managing Director)

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.
CIN No. U67190MH2008PLC187552

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Amount as per Demand Notice	Date of Possession
9830227	Mrs. Bharti Tomar as (Borrower) and Mr. Yogesh Kumar (Co-Borrower)	Rs. 2082696/- As on 07.06.2021	22/10/2021

Description of Secured Assets/Immovable Properties : All that piece and parcel of the residential House No. 2876 - A / LIG / FF, Housing Board Colony, Sector - 3, Faridabad, Tehsil Ballabgarh, Dist. Faridabad (Hr.) measuring 14.81 Sq. Yards vid registered Sai Deed bearing No. 3907 Dated 20.06.2012 office of Sub Registrar Ballabgarh.

10263978	Mr. Punit Makkar as (Borrower) and Mrs. Shanti Devi (Co-Borrower)	Rs. 76,16,017/- As on 07.06.2021	22/10/2021
----------	---	----------------------------------	------------

Description of Secured Assets/Immovable Properties : All that property bearing No. 499, area measuring 143 Sq. Yards, situated at Jagdish Colony, Ballabgarh, Haryana bounded as follows : East: Other property, West: Other Property, North: Mohna Road, South : Other Property.

10625307	Mr. Ashwini Jain as (Borrower) and Mrs. Pooja Jain (Co-Borrower)	RS. 53,65,224/- as on 10.07.2021	23/10/2021
----------	--	----------------------------------	------------

Description of Secured Assets/Immovable Properties : All That, Eastern Side Portion (Corner) of third Floor (with its Roof Rights upto Sky) Area Measuring 156 Sq. Yds. (130.42 Sq. Meters), Part of The Above Mentioned Free Hold Built up Property Bearing No. A-1, Built on Total Land Area Measuring 311 Sq. Yds, or 260 Sq Mtrs., Situated at Sardar Nagar, Delhi 110009 Along with 1/8th Undivided Share of Entire Stilt Parking i.e. 1/4th Share of Stilt Parking under this floor, Area Measuring 156 Sq. Yds., With Common Rights to Use of Entrance, Passage, Stair and Lift Etc., with freehold Proportionate Rights in the land under the said property which is bounded as under, East- Service Lane, West- Remaining Portion of said property, North- Service Lane, South- Road

9616215	Mr. Saji Paulas (Borrower)	Rs. 2026854/- as on 18.06.2021	22-10-2021
---------	----------------------------	--------------------------------	------------

Description of Secured Assets/Immovable Properties : All That Piece And Parcel of Residential Unit/Fiat no. 377A on the Ground Floor of Tower/Pocket AP measuring 1130 sq. ft. of super built-up area, situated at SRS Pearl, Sector -05, Palwal, Haryana.

10460568 & 10464846	Mrs. Laxmi Tyagi as (Borrower) and Mr. Pawan Kumar (Co-Borrower)	26,35,160/- is due and payable by you under Agreement No. 10460568 and an amount of Rs. 1,20,324/- is due and payable by you under Agreement No. 10464846 totaling to Rs. 27,55,484/- As on 09.06.2021	22-10-2021
---------------------	--	--	------------

Description of Secured Assets/Immovable Properties : All That Pieces and Parcel of Residential House No. 3695/LIG/GF situated in Housing Board Colony, Sector - 03, Pocket - II, Tehsil - Ballabgarh, Distt - Faridabad, Haryana. Covered Area 160 sq. ft., Measuring 15.52 sq. mtr.

Date: - 27/10/2021 Place: - Delhi Sd/- Authorised Officer, For Tata Capital Housing Finance Limited



Asset Recovery Management (ARM) II
Parliament Street, New Delhi-110001,
Ph - 011-23323891, 23723121,

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property)

Whereas, the authorized officer of the CANARA BANK, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers conferred under Sub-Section 13 (12) read with rule 03 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued Demand Notice dated 11/11/2008 Calling upon the borrower: M/s Goel Tempo Pvt Ltd (Private Limited Company) through its directors Mr. Hari Mohan Goel S/o Shri Sohan Lal Goel, Sh. Deepanshu Goel S/o Hari Mohan Goel, Sh. Amit Goel S/o Hari Mohan Goel and Smt. Poonam Goel w/o Hari Mohan Goel, (hereinafter referred to as "the Directors & Guarantors") to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,34,91,411.10 (Rs. One Crore Thirty Four Lakh Ninety One Thousand Four Hundred Eleven and Paise Ten only) plus interest wef 01-10-2007, expenses and other charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

That the borrower/Guarantor having failed to repay the amount, pursuant to notice above

**NDR Auto Components Limited**

Regd. Office : Level - 5, Regus Caddie Commercial Tower, Hospitality District Aerocity, IGI Airport, New Delhi - 110037
CIN: L29304DL2019PLC347460

Website: www.ndrauto.com; E-mail: cs@ndrauto.com, Phone: +91 11 66544976

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2021 (Rs. in lakhs except)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended	
		30/09/2021 (Unaudited)	30/06/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,577.37	4,563.60	3,027.82	10,140.97	3,4
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	390.07	242.79	337.45	632.86	1
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	390.07	242.79	337.45	632.86	1
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	310.11	193.46	289.50	503.57	1
5	Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	311.28	194.61	284.63	505.89	1
6	Equity share capital	594.63	594.63	594.63	594.63	5
7	Other equity (reserves) (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet	-	-	-	-	-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (In Rs.)					
	(a) Basic (Rs.)	5.22	3.25	4.87	8.47	
	(b) Diluted (Rs.)	5.22	3.25	4.87	8.47	

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly/ six monthly/ yearly standalone financial results Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 20 the quarterly/ six monthly/ yearly standalone financial results are available on the websites of the Company (www. www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
- The above standalone financial results of NDR Auto Components Limited ("the Company") have been prepared Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rule amendment rules thereafter.
- The above standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board meeting held on 26th October 2021. The above financials results have been subjected to limited review by the the Company in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410 issued by the Institute of Accountants of India and they have issued an unmodified report on the aforesaid results.

For and on behalf of the

Place: Gurugram
Date: 26th October, 2021

W

**TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED**

Add. 7th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

(As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 22.05.2021 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act.

The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Financial Services Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

Loan A/c.No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Amount as on Dated	Date of Possession
7853098	1. Anurag Jain S/o Pradhuman Jain 210/3, Doongar Mohalla, Shahdara, Delhi-110032	Rs. 33,72,694/- as on 22 May, 2021	25.10.2021 (Physical Possession)
	2. Usha Jain W/o Pradhuman Jain S/o Sh Mahinder Kumar Jain 210/3, Doongar Mohalla, Shahdara, Delhi-110032		
	3. Pradhuman Jain S/o Sh Mahinder Kumar Jain 210/3, Doongar Mohalla, Shahdara, Delhi-110032		
	4. M/s Maa Maya Textile Through Its Prop 1662, Old Marwari Katra, Nai Sarak, Delhi-110006.		
	Also At : 210/3, Doongar Mohalla, Shahdara, Delhi-110032.		

PROPERTY NO. 210/3, ENTIRE 3RD FLOOR, AREA MEASURING 89.12 SQMTRS WITH ROOF RIGHTS, OUT OF KHASRA NO.642, VILLAGE CHANDRAWALI, MOHALLA DOONGAR, ILLAQA SHAHDARA, Delhi-110032 MORE DESCRIBED IN SALE DEED DATED 27.09.2012 IN FAVOUR OF USHA RANI.

BOUNDED AS : EAST - 15' WIDE ROAD, WEST : OTHER'S PROPERTY, NORTH : 10' WIDE GALI, SOUTH : REMAINING PART OF PLOT.

Date : 25.10.2021
Place : Delhi

Sd/- Authorised Officer
For TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

कॉन्टोल पेट्रोलियम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ए-2, इन्द्रा भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कॉप, जयपुर-302005 (राजस्थान), फोन: 0141-2222232
CIN: L23201RJ1986PLC063794, ई-मेल: competco@gmail.com, cs.competco@gmail.com, वेबसाइट: www.contol.in

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अधिनियम, 2015) के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2021 को दोपहर 1:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुपादित किया जायेगा। पुनःच: कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों को लेनेदेने हेतु ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितम्बर 2021 को परिणाम घोषित होने के 48 घंटे तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.contol.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते कॉन्टोल पेट्रोलियम लिमिटेड
स्थान: जयपुर
दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021
मदन लाल खण्डेलवाल (मैनेजिंग डायरेक्टर)

VI VANIJYA NIYOJAN LIMITED

(CIN: L51909WB1980PLC033087)
1B, Ezra Street, World Trade Centre, Kolkata - 700 001, West Bengal, India
6447; E-mail: pvnj80@gmail.com; Website: www.purvivanijya.com

ittee of Independent Directors ('IDC') on the Delisting Offer of PURVI VANIJYA i Vanijya Niyojan Limited' or 'the Company') made by Raghav Commercial Limited industrial Securities Limited ('Acquirer 2') (hereinafter collectively referred to as ureholders of the Company in accordance with the provisions of Regulation 28 of Board of India (Delisting Regulations) Regulations, 2021 including subsequent elisting Regulations').

	Wednesday, October 27, 2021;
ing to the	Purvi Vanijya Niyojan Limited;
ing to the	Voluntary Delisting Offer by Raghav Commercial Limited ("Acquirer 1") and Giltedged Industrial Securities Limited ("Acquirer 2") for the proposed acquisition and voluntary delisting of upto 3,77,379 (Three Lakhs Seventy-Seven Thousand Three hundred and Seventy-Nine) fully paid-up equity shares of Rs.10.00/- (Rupees Ten Only) ('Equity Shares') each representing 25.71% of the fully paid-up Equity Share capital and voting share capital of the Company, at a Floor Price of Rs. 800.00/- (Rupees Eight Hundred Only) per Equity Share, payable in cash ('Floor Price');
e Offer	Raghav Commercial Limited ("Acquirer 1") and Giltedged Industrial Securities Limited ("Acquirer 2");
of	CapitalSquare Advisors Private Limited 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India; Phone No: +91-22-6684 9999/ +91-9874283532; Email: tamoybanerjee@capitalsquare.in / mb@capitalsquare.in ; Website: www.capitalsquare.in ; Contact Person: Mr. Tamoy Banerjee; SEBI Reg. No.: INM000012219;
of	Pradeep Agarwal Member Jyoti Gupta Chairman
p with the ty Shares t/ relationship)	a) None of the members of the IDC hold any Equity Shares in the Company; b) None of the members of IDC have any other contract or relationship nor are they related with the Company other than acting in their capacity of directors of the Company;
ures/ other by IDC	None of the members of IDC have traded in any Equity Shares of the Company during the period of 12 months prior to the date of Initial Public Announcement of the Open Offer dated Thursday, July 01, 2021;
p with the ty Shares t/ relationship)	The members of IDC in the Company i.e. Pradeep Agarwal and Jyoti Gupta are acting in capacity of Independent Directors in Raghav Commercial Limited ("Acquirer 1");
ures/ other i by IDC	Not Applicable;
ffer, as to not, fair and	Based on the review of the Initial Public Announcement, Detailed Public Announcement, and Letter of Offer, issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers, the members of IDC believe that Offer is in accordance with SEBI Delisting Regulations 2021, to the extent is fair and reasonable.
ommendation	Based on the review of Initial Public Announcement, Detailed Public Announcement, and Letter of Offer, the members of IDC have considered the following for making recommendations: a. Floor Price is justified in terms of Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations 2011 read with 20 of Delisting Regulation 2021; b. Keeping in view of the above fact, members of IDC are of the opinion that the Floor Price of Rs. 800.00/- (Rupees Eight Hundred Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Delisting Offer and take informed decision on the matter;
visors, if any	None;
on of the offer proposal	All the IDC members unanimously voted in favor of recommending the Delisting Offer proposal;
ghlighted	Nil;

Public Announcement (DPA) was published in Duranta Barta (Bengali Edition) habar (Bengali Edition) (Kolkata Edition) as specified in Paragraph 1.11 of the DPA f Offer.

I belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this t, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, required to be disclosed by the Company under SEBI Delisting Regulations 2021.

For and on behalf of
Committee of Independent Directors
Purvi Vanijya Niyojan Limited
Sd/-
Jyoti Gupta

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि.
पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतगल कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013
CIN No. U67190MH2008PLC187552

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना तिथि से उस पर ब्याज तथा डंड ब्याज, चार्ज, लागतों आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारी/सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कच्चा की तिथि
9830227	श्रीमती भारती तोमर (ऋणधारक) तथा श्री योगेश कुमार (सह-ऋणधारक)	07.06.2021 को रु. 2082696/-	22/10/2021

प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्तियों का विवरण: उप-रजिस्ट्रार बल्लभगढ़ के कार्यालय में पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 3907 तिथि 20.06.2012 के माध्यम से आवासीय मकान सं. 2876-ए/एलआईजी/एफएफ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-3, फरीदाबाद, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद (हरि.) माप 14.81 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

10263978	श्री पुनीत मक्कर (ऋणधारक) तथा श्रीमती शान्ति देवी (सह-ऋणधारक)	07.06.2021 को रु. 761607/-	22/10/2021
----------	---	----------------------------	------------

प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्तियों का विवरण: जगदीश कॉलोनी, बल्लभगढ़, हरियाणा में स्थित सम्पत्ति सं. 499, एरिया माप 143 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: मोहन रोड, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति।

10625307	श्री अश्वनी जैन (ऋणधारक) तथा श्रीमती पूजा जैन (सह-ऋणधारक)	10.07.2021 को रु. 5365224/-	23/10/2021
----------	---	-----------------------------	------------

प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्तियों का विवरण: तोसर तल के पूर्वी भाग में (असीमित छत के अधिकार सहित) एरिया माप 156 वर्ग यार्ड्स (130.42 वर्ग मी.) फ्री होल्ड सम्पत्ति सं. ए-1 का भाग, कुल एरिया माप 311 वर्ग यार्ड्स अथवा 260 वर्ग मी. पर निर्मित, सरदार नगर, दिल्ली-110009 में स्थित, का सम्पूर्ण भाग तथा हिस्सा के साथ सम्पूर्ण स्टिल्ट पार्किंग का 1/8 वां अविभाजित शेयर अर्थात्, उक्त तल में स्टिल्ट पार्किंग का 1/4 वां शेयर, प्रवेश, पैसेज, सीढ़ियों/लिफ्ट आदि के उपयोग के सामूहिक अधिकार सहित, उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि में फ्री होल्ड आनुपातिक अधिकारों के साथ, चौहद्दी: पूर्व: सर्विस लेन, पश्चिम: उक्त सम्पत्ति का शेष भाग, उत्तर: सर्विस लेन, दक्षिण: रोड

9616215	श्री साजी पॉल (ऋणधारक)	18.6.2021 को रु. 2026854/-	22-10-2021
---------	------------------------	----------------------------	------------

प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्तियों का विवरण: एसआरएस पल, सेक्टर-05, पलवल, हरियाणा में स्थित टावर/पॉकेट एपी माप 1130 वर्ग फीट सुपर निर्मित एरिया के भूतल पर आवासीय यूनिट/प्लैट नं. 37/ए का सभी भाग तथा हिस्सा

10460568 & 10464846	श्रीमती लक्ष्मी त्वागी (ऋणधारक) तथा श्री पवन कुमार (सह-ऋणधारक)	एग्रीमन्ट नं. 10460568 के अंतर्गत आपके द्वारा 2635160/- बकाया एवं देय है तथा अनुबंध सं. 10464846 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 120324/- बकाया तथा देय है, कुल 9.6.2021 को रु. 27,55,484/-	22-10-2021
---------------------	--	--	------------

प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्तियों का विवरण: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-03, पॉकेट-1, तहसील बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा कवर्ड एरिया 160 वर्ग फीट, माप 15.52 वर्ग मी. में स्थित आवासीय मकान सं. 3695/एलआईजी/एफ का सभी भाग तथा हिस्सा।
तिथि: 27.10.2021
स्थान: दिल्ली

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिये